



भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

RBI/2021-22/14

FIDD.CO.Plan.BC.No.7/04.09.01/2021-22

April 7, 2021

The Chairman / Managing Director/
Chief Executive Officer
[All Commercial Banks including Regional Rural Banks,
Small Finance Banks, Local Area Banks and
Primary (Urban) Co-operative Banks other than Salary Earners' Banks]

Dear Sir/Madam

Priority Sector Lending (PSL) – Increase in limits for bank lending against Negotiable Warehouse Receipts (NWRs) / electronic Negotiable Warehouse Receipts (eNWRs)

Please refer to the [Statement on Developmental and Regulatory Policies dated April 7, 2021](#), wherein Reserve Bank of India (RBI) had announced increase in loan limits for bank lending against NWRs/eNWRs.

2. In terms of paras 8.1 (vii) and 8.2 (b) of the [“Master Direction on Priority Sector Lending – Targets and Classification” dated September 4, 2020](#), bank loans against pledge/ hypothecation of agricultural produce (including warehouse receipts) for a period not exceeding 12 months are eligible for classification under PSL, subject to a limit up to ₹50 lakh per borrower.

3. With a view to ensure greater flow of credit to the farmers against pledge/hypothecation of agricultural produce, and to encourage use of NWR/eNWR issued by regulated warehouses as a preferred instrument for availing such finance by the farmers, it has been decided to enhance the PSL limit for loans against NWRs/eNWRs from ₹50 lakh to ₹75 lakh per borrower. The PSL limit backed by the warehouse receipts other than NWR/eNWR will continue to be ₹50 lakh per borrower.

4. Consequent to the above change, para 8.1(vii) and 8.2(b) of the [Master Direction on Priority Sector Lending – Targets and Classification dated September 4, 2020](#) will stand modified as follows:

वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 10वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय बिल्डिंग, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई 400001
टेलीफोन: Tel No.: +912222601000/ फैक्स: +91-22-22621011/22610948/22610943 ईमेल: cgmincidd@rbi.org.in

Financial Inclusion and Development Department, Central Office, 10th Floor, Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Marg, Mumbai 400001

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए

चेतावनी: रिज़र्व बैंक द्वारा डाक, भेल एसएमएस या फोन कॉल के जरिए किसी की भी व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक के खाते का ब्यौरा, पासवर्ड आदि नहीं मांगी जाती है। यह धन रखने या देने का प्रस्ताव भी नहीं करता है। ऐसे प्रस्तावों का किसी भी तरीके से जवाब मत दीजिए।

Caution: RBI never sends mails, SMSs or makes calls asking for personal information like bank account details, passwords, etc. It never keeps or offers funds to anyone. Please do not respond in any manner to such offers.



Para 8.1 - Farm Credit - Individual farmers

vii. Loans against pledge/hypothecation of agricultural produce (including warehouse receipts) for a period not exceeding 12 months subject to a limit up to ₹75 lakh against NWRs/eNWRs and up to ₹50 lakh against warehouse receipts other than NWRs/eNWRs.

Para 8.2 Farm Credit - Corporate farmers, Farmer Producer Organisations (FPOs)/(FPC) Companies of Individual Farmers, Partnership firms and Co-operatives of farmers engaged in Agriculture and Allied Activities

(b) Loans up to ₹75 lakh against pledge/hypothecation of agricultural produce (including warehouse receipts) for a period not exceeding 12 months against NWRs/eNWRs and up to ₹50 lakh against warehouse receipts other than NWRs/eNWRs.

Yours faithfully

(Sonali Sen Gupta)
Chief General Manager-in-Charge